



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2009/माघ 16, 1930

No. 64]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2009/MAGHA 16, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 75(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008 का अनुमोदित करती है।

उक्त विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी आर-12012/4/2008-पीई. 1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन न्यास

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008

पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 1980, जो समय-समय पर संशोधित है, में पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008 कहा जाएगा।
2. वर्तमान के नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता एवं पदोन्नति) विनियम, 1980, जो समय-समय पर संशोधित है, में

वर्तमान की अनुसूची सं. 9, 16 व 17 रद्द करके उसकी जगह निम्नलिखित नई अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए :

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वर्गीकरण	सीधी भर्ती के लिए निम्न तथा उच्च आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7

9	सहायक अभियंता (सिविल)	30	रु. 8600—14600	श्रेणी-II	35 वर्ष से ज्यादा न हो।	अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या उसके समतुल्य। (ii) सिविल इंजीनियरी कार्यों के डिजाइन निर्माण और अनुरक्षण में 2 वर्ष का अनुभव।
---	-----------------------	----	----------------	-----------	-------------------------	--

वांछनीय :

हार्वर इंजीनियरी में अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति और अन्य विभाग में अनुरूप पदों पर आसीन व्यक्ति और प्रतिनियुक्तियों के मामले में भी लागू होगी	भर्ती की विधि : क्या पदोन्नति द्वारा स्थानांतरण सीधी भर्ती की प्रतिनियुक्ति और भर्ती की विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	क्या पद प्रवरण है अथवा गैर-प्रवरण पर (केवल पदोन्नति के लिए)
---	---	---

8	9	10
आयु : नहीं। योग्यता : नहीं। लेकिन सिविल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य है।	पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन द्वारा

पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के मामले में संवर्ग जिनमें से पदोन्नति अथवा स्थानांतरण किया जाना होगा	परिबीक्षा की निर्धारित अवधि	टिप्पणी
--	-----------------------------	---------

11	12	13
पदोन्नति :	2 वर्ष	शून्य

- अपने ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (सिविल) या तकनीकी सहायक (सि.) व कनिष्ठ अभियंता (सि.) के रूप में संयुक्त रूप में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (सिविल)।
- अपने ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (सि.) या कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (सि.) एवं कनिष्ठ अभियंता (सि.) के रूप में अथवा कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (सि.) एवं प्रारूपकार ग्रेड I (सि.) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (सि.)।
- अपने ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवायुक्त सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी प्रधान प्रारूपकार (सिविल) या प्रधान प्रारूपकार (सि.) और प्रारूपकार ग्रेड I (सि.) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त प्रधान प्रारूपकार (सि.)।

11

ऐसा न होने पर

4. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता (सि.) ।
5. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त प्रारूपकार ग्रेड I ।

1	2	3	4	5	6	7
16	सहायक अभियन्ता (यां.)	11	रु. 8600—14600	श्रेणी-II	35 वर्ष से ज्यादा न हो ।	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या उसके समतुल्य । (ii) यांत्रिक या यांत्रिक मेराइन कार्यों में 2 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10
आयु : नहीं । योग्यता : नहीं । लेकिन यांत्रिकी इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य है ।	पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन द्वारा

11	12	13
पदोन्नति :	2 वर्ष	शून्य
1. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (यांत्रिक) या तकनीकी सहायक (यां.) और कनिष्ठ अभियंता (यां.) के रूप में संयुक्त रूप में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (यांत्रिक) ।		
2. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (यां.) या कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (यां.) और कनिष्ठ अभियंता (यां.) अथवा कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (यां.) प्रारूपकार ग्रेड I (यां.) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (यां.) ।		
3. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमायुक्त प्रधान प्रारूपकार (यां.) या प्रधान प्रारूपकार (यां.) और प्रारूपकार ग्रेड I (यां.) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त प्रधान प्रारूपकार (यां.) ग्रेड II ।		

ऐसा न होने पर

4. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता (यां.) ।
5. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त प्रारूपकार ग्रेड I (यां.) ।

1	2	3	4	5	6	7
17	सहायक अभियन्ता (बिजली)	20	रु. 8600-14600 श्रेणी-2	35 वर्ष से ज्यादा न हो।	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में डिग्री। (ii) इलैक्ट्रीकल कार्यों में 2 वर्ष का अनुभव।	

8	9	10
आयु : नहीं योग्यता : नहीं। लेकिन इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य है।	पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन द्वारा

11	12	13
पदोन्नति :	2 वर्ष	शून्य
1. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (बि.) या तकनीकी सहायक (बि.) और कनिष्ठ अभियंता (बि.) के रूप में संयुक्त रूप से 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त तकनीकी सहायक (बि.)।		
2. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (बि.) या कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (बि.) और कनिष्ठ अभियंता (बि.) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (बि.)।		
3. अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (एफसी) या कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (एफ सी) व इलैक्ट्रिशियन (क्राफ्ट) के रूप में संयुक्त रूप से 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता ग्रेड I (एफ.सी)		
ऐसा न होने पर		
4. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त कनिष्ठ अभियंता (बि.)		
5. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त इलैक्ट्रिशियन (क्राफ्ट)		
6. अपने ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवायुक्त फोरमैन (बि.)		

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 27-3-1980 को सं. सा.का.नि. 156(अ) में प्रकाशित हुए थे और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं :

- | | |
|--|---|
| 1. सं. सा.का.नि. 1041(अ), दिनांक 5-12-89 | 13. सं. सा.का.नि. 136(अ), दिनांक 6-3-97 |
| 2. सं. सा.का.नि. 940(अ), दिनांक 7-12-90 | 14. सं. सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 10-7-97 |
| 3. सं. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 27-2-91 | 15. सं. सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 29-7-97 |
| 4. सं. सा.का.नि. 658(अ), दिनांक 31-10-91 | 16. सं. सा.का.नि. 471(अ), दिनांक 19-8-97 |
| 5. सं. सा.का.नि. 659(अ), दिनांक 18-11-91 | 17. सं. सा.का.नि. 334(अ), दिनांक 4-6-98 |
| 6. सं. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 15-1-93 | 18. सं. सा.का.नि. 658(अ), दिनांक 5-11-98 |
| 7. सं. सा.का.नि. 530(अ), दिनांक 3-8-93 | 19. सं. सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 10-11-98 |
| 8. सं. सा.का.नि. 454(अ), दिनांक 12-5-94 | 20. सं. सा.का.नि. 688(अ), दिनांक 19-11-98 |
| 9. सं. सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 9-1-96 | 21. सं. सा.का.नि. 717(अ), दिनांक 3-12-98 |
| 10. सं. सा.का.नि. 257(अ), दिनांक 27-6-96 | 22. सं. सा.का.नि. 755(अ), दिनांक 18-12-98 |
| 11. सं. सा.का.नि. 289(अ), दिनांक 27-6-96 | 23. सं. सा.का.नि. 777(अ), दिनांक 30-12-98 |
| 12. सं. सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 6-3-97 | 24. सं. सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 10-2-99 |

- | | |
|--|---|
| 25. सं. सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 10-2-99 | 42. सं. सा.का.नि. 232(अ), दिनांक 8-3-2000 |
| 26. सं. सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 10-2-99 | 43. सं. सा.का.नि. 512(अ), दिनांक 31-5-2000 |
| 27. सं. सा.का.नि. 297(अ), दिनांक 29-4-99 | 44. सं. सा.का.नि. 557(अ), दिनांक 22-6-2000 |
| 28. सं. सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 10-5-99 | 45. सं. सा.का.नि. 728(अ), दिनांक 18-9-2000 |
| 29. सं. सा.का.नि. 350(अ), दिनांक 14-5-99 | 46. सं. सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 18-9-2000 |
| 30. सं. सा.का.नि. 365(अ), दिनांक 19-5-99 | 47. सं. सा.का.नि. 776(अ), दिनांक 6-10-2000 |
| 31. सं. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 19-5-99 | 48. सं. सा.का.नि. 777(अ), दिनांक 6-10-2000 |
| 32. सं. सा.का.नि. 418(अ), दिनांक 8-6-99 | 49. सं. सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 9-11-2000 |
| 33. सं. सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 12-8-99 | 50. सं. सा.का.नि. 365(अ), दिनांक 16-5-2001 |
| 34. सं. सा.का.नि. 595(अ), दिनांक 18-8-99 | 51. सं. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 2-5-2002 |
| 35. सं. सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 1-1-2000 | 52. सं. सा.का.नि. 846(अ), दिनांक 28-10-2003 |
| 36. सं. सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 1-1-2000 | 53. सं. सा.का.नि. 282(अ), दिनांक 23-4-2004 |
| 37. सं. सा.का.नि. 9(अ), दिनांक 1-1-2000 | 54. सं. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 16-6-2005 |
| 38. सं. सा.का.नि. 10(अ), दिनांक 1-1-2000 | 55. सं. सा.का.नि. 468(अ), दिनांक 12-7-2005 |
| 39. सं. सा.का.नि. 105(अ), दिनांक 10-2-2000 | 56. सं. सा.का.नि. 48(अ), दिनांक 3-2-2006 |
| 40. सं. सा.का.नि. 130(अ), दिनांक 16-2-2000 | 57. सं. सा.का.नि. 242(अ), दिनांक 24-4-2006 |
| 41. सं. सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 16-2-2000 | 58. सं. सा.का.नि. 463(अ), दिनांक 4-8-2006 |

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2009

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employee's (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2008 made by the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.No.PR-12012/4/2008-PE. I]
RAKESH SRIVASTAVA, Jt Secy.

SCHEDULE

NEW MANGALORE PORT TRUST

New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2008.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations 1980 as amended from time to time.

1. These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2008.
2. In the existing New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1980 and amended from time to time, delete the existing Schedule No. 9, 16 and 17 and substitute the same by new schedule as detailed below :

500 4709-2

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Scale of Pay	Classification	Age limits lower and upper for direct recruits	Educational qualification and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
9.	Asst. Engineer (Civil)	30	Rs. 8600–14600	Class II	Not Exceeding 35 years	Essential : (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 2 years experience in Design construction and maintenance of Civil Engineering Works. Desirable : Experience in Harbour Engineering.

Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and persons holding analogous post in other department and deputationists.

Method of recruitment : Whether by Promotion/Transfer/Deputation or direct recruitment and percentage of vacancies to be filled by different methods of recruitment

Whether post is a selection post or non-selection post (for promotion only)

8	9	10
Age : No Qualification : No But must possess at least a Diploma in Civil Engineering.	By promotion failing which by direct recruitment	By selection

In case of promotion or transfer, cadres from which promotion or transfer shall be made	Prescribed period of probation	Remarks
---	--------------------------------	---------

11	12	13
Promotion:	2 years	Nil

1. Technical Asst. (Civil) with 2 years regular service in the grade OR Technical Asstt. (Civil) with combined regular service of 4 years as Tech. Asst. (C) and JE (C.)
2. JE Gr. I (C) with 2 years regular service in the grade or JE Gr. I (C) with combined regular service of 5 years as JE Gr. I (C) and JE (C) or as JE Gr. I (C) and DM Gr. I (C)
3. Head Draftsman (Civil) with Diploma in Civil Engineering with 2 years regular service in the grade or HD (C) with combined regular service of 5 years as HD (C) and DM Gr. I (C).

Failing which

4. JE (C) with 6 years regular service in the grade.
5. DM Gr. I with 6 years regular service in the grade.

1	2	3	4	5	6	7
16.	Asstt. Engineer (M)	11	8600-14600	Class II	Not exceeding 35 years	(i) Degree in Mechanical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 2 years experience in Mechanical or Mechanical Marine Works.
8		9			10	
Age : No. Qualification : No. But must possess at least a Diploma in Mechanical Engineering.			By promotion failing which by direct recruitment.			By selection
11			12		13	
Promotion:			2 years		Nil	
1. Technical Asstt.(Mech.) with 2 years regular service in the grade OR Technical Asstt. (Mech.) with combined regular service of 4 years as Tech. Asstt. (M) and JE (M.)						
2. JE Gr. I (M) with 2 years regular service in the grade OR JE Gr. I (M) with combined regular service of 5 years as JE Gr. I (M) and JE (M) or as JE Gr.I (Mech.) and DM Gr.I (Mech.).						
3. Head Draftsman (M) with Diploma in Mechanical Engineering with 2 years regular service in the grade or HD (M) with combined regular service of 5 years as HD (M) and DM Gr. I (M).						
Failing which						
4. JE (M) with 6 years regular service in the grade.						
5. DM Gr. I (Mech.) with 6 years regular service in the grade.						
1	2	3	4	5	6	7
17.	Asstt. Engineer (Ele.)	20	8600-14600	Class II	Not Exceeding 35 years	(i) Degree in Electrical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 2 years experience in Electrical Works.
8		9			10	
Age : No. Qualification : No. But must possess at least a Diploma in Electrical Engineering.			By promotion failing which by direct recruitment.			By selection

11

12

13

Promotion :

- | | | |
|---|---------|-----|
| 1. Technical Asstt. (Elec.) with 2 years regular service in the grade OR Technical Asstt. (Elec.) with combined regular service of 4 years as Tech. Asstt. (Elec.) and JE (Elec.) | 2 years | Nil |
| 2. JE Gr. I (Elec.) with 2 years regular service in the grade OR JE Gr. I (Elec.) with combined regular service of 5 years as JE Gr. I (Elec.) and JE (Elec.) | | |
| 3. JE Gr. I (FC) with 2 years regular service in the grade or JE Gr. I (FC) with combined regular service of 5 years as JE Gr. I (FC) and Electrician. (Crafts) | | |

Failing which

- | |
|--|
| 4. JE (Elec.) with 6 years regular service in the grade. |
| 5. Electrician (Crafts) with 6 years regular service in the grade. |
| 6. Foreman (Elec.) with 6 years regular service in the grade. |

Foot Note: Principal Regulations published *vide* No. G.S.R. 156 (E), dated 27-3-1980 and subsequently amended *vide* :—

- | | |
|--|--|
| 1. No. G.S.R. 1041(E), dated 5-12-1989 | 30. No. G.S.R. 365 (E), dated 19-5-1999 |
| 2. No. G.S.R. 940 (E), dated 7-12-1990 | 31. No. G.S.R. 366 (E), dated 19-5-1999 |
| 3. No. G.S.R. 92(E), dated 27-2-1991 | 32. No. G.S.R. 418 (E), dated 8-6-1999 |
| 4. No. G.S.R. 658 (E), dated 31-10-1991 | 33. No. G.S.R. 587 (E), dated 12-8-1999 |
| 5. No. G.S.R. 659 (E), dated 18-11-1991 | 34. No. G.S.R. 595 (E), dated 18-8-1999 |
| 6. No. G.S.R. 23 (E), dated 15-1-1993 | 35. No. G.S.R. 4 (E), dated 1-1-2000 |
| 7. No. G.S.R. 530 (E), dated 3-8-1993 | 36. No. G.S.R. 8 (E), dated 1-1-2000 |
| 8. No. G.S.R. 454 (E), dated 12-5-1994 | 37. No. G.S.R. 9 (E), dated 1-1-2000 |
| 9. No. G.S.R. 15 (E), dated 9-1-1996 | 38. No. G.S.R. 10 (E), dated 1-1-2000 |
| 10. No. G.S.R. 257 (E), dated 27-6-1996 | 39. No. G.S.R. 105 (E), dated 10-2-2000 |
| 11. No. G.S.R. 289 (E), dated 27-6-1996 | 40. No. G.S.R. 130 (E), dated 16-2-2000 |
| 12. No. G.S.R. 135 (E), dated 6-3-1997 | 41. No. G.S.R. 131 (E), dated 16-2-2000 |
| 13. No. G.S.R. 136 (E), dated 6-3-1997 | 42. No. G.S.R. 232 (E), dated 8-3-2000 |
| 14. No. G.S.R. 384 (E), dated 10-7-1997 | 43. No. G.S.R. 512 (E), dated 31-5-2000 |
| 15. No. G.S.R. 429 (E), dated 29-7-1997 | 44. No. G.S.R. 557 (E), dated 22-6-2000 |
| 16. No. G.S.R. 471 (E), dated 19-8-1997 | 45. No. G.S.R. 728 (E), dated 18-9-2000 |
| 17. No. G.S.R. 334 (E), dated 4-6-1998 | 46. No. G.S.R. 729 (E), dated 18-9-2000 |
| 18. No. G.S.R. 658 (E), dated 5-11-1998 | 47. No. G.S.R. 776 (E), dated 6-10-2000 |
| 19. No. G.S.R. 667 (E), dated 10-11-1998 | 48. No. G.S.R. 777 (E), dated 6-10-2000 |
| 20. No. G.S.R. 688 (E), dated 19-11-1998 | 49. No. G.S.R. 857 (E), dated 9-11-2000 |
| 21. No. G.S.R. 717 (E), dated 3-12-1998 | 50. No. G.S.R. 365 (E), dated 16-5-2001 |
| 22. No. G.S.R. 755 (E), dated 18-12-1998 | 51. No. G.S.R. 318 (E), dated 2-5-2002 |
| 23. No. G.S.R. 777 (E), dated 30-12-1998 | 52. No. G.S.R. 846 (E), dated 28-10-2003 |
| 24. No. G.S.R. 85 (E), dated 10-2-1999 | 53. No. G.S.R. 282 (E), dated 23-4-2004 |
| 25. No. G.S.R. 86 (E), dated 10-2-1999 | 54. No. G.S.R. 406 (E), dated 16-6-2005 |
| 26. No. G.S.R. 90 (E), dated 10-2-1999 | 55. No. G.S.R. 468 (E), dated 12-7-2005 |
| 27. No. G.S.R. 297 (E), dated 29-4-1999 | 56. No. G.S.R. 48 (E), dated 3-2-2006 |
| 28. No. G.S.R. 325 (E), dated 10-5-1999 | 57. No. G.S.R. 242 (E), dated 24-4-2006 |
| 29. No. G.S.R. 350 (E), dated 14-5-1999 | 58. No. G.S.R. 463 (E), dated 4-8-2006 |